

भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान
4, कालिदास मार्ग, पो. बाक्स सं. 135
देहरादून-248001, भारत
दूरभाष : +91-135-2524399
फैक्स : +91-135-2741987, 2748041




158/

Government of India
Department of Space
Indian Institute of Remote Sensing
4, Kalidas Road, P.B. No. 135,
Dehradun - 248001, India
Telephone : +91-135-2524399
Fax : +91-135-2741987, 2748041

डॉ० राघवेंद्र प्रताप सिंह
निदेशक
Dr. R. P. Singh
Director

सं. : भासुसंसं/ जीआईटी&डीएल/ डीएम/2025
No.: IIRS/GIT&DL/DM/2025



26 जून, 2025
June 26, 2025

विषय: "निर्णयकर्ताओं के लिए सुदूर संवेदन का अवलोकन" पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए आपके मंत्रालय/संगठन से वरिष्ठ अधिकारियों के नामांकन हेतु अनुरोध के संबंध में।

Subject: Request for nomination of senior officers from your organization for the course on "Remote Sensing – An Overview for Decision Makers"- reg.

महोदय / महोदया,
Dear Sir/Madam,

8/11/25
आईआईआरएस की ओर से अभिनन्दन / Greetings from IIRS,

Dr. Singh (Sec)

Dr. Singh

भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत एक प्रमुख शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हेतु सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से की गयी है।

Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) under Indian Space Research Organisation (ISRO), Department of Space, Govt. of India is a premier Training and Educational Institute set up for building trained professionals in the field of Remote Sensing, GIS and GNSS technologies for Natural Resources Management.

आईआईआरएस नियमित रूप से "निर्णयकर्ताओं के लिए सुदूर संवेदन का अवलोकन" विषय पर एक लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः सरकारी विभागों, एनजीओ एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत वरिष्ठ स्तर के निर्णयकर्ताओं व टीम लीडर (ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव तथा अन्य के लिए 10 वर्ष का अनुभव) के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पाँच दिन की अवधि का है और 06-10 अक्टूबर, 2025 के दौरान निर्धारित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक दौर में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों (सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली आदि) और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन का समर्थन, ढांचागत परियोजनाओं और पर्यावरण निगरानी में व्यापक अवलोकन प्रदान करना है।

Santosh Datta
PS
09/07/25

Dr. Singh (Sec)

DS-1

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

Indian Space Research Organisation

15/11/25

IIRS regularly conducts a short training programme on "Remote Sensing-An Overview for Decision Makers" and it is specially designed for the decision makers or team leaders at senior level (with a minimum of 3 years of experience for officers of All India Services & 10 years of experience for others) in government departments, NGOs and private sector. The training programme is of five days duration and scheduled during **October 06-10, 2025**. The main objective of the training programme is to provide a broad overview of recent trends in geospatial technologies (remote sensing, GIS, GPS, etc.) and their applications in natural resources management, environmental monitoring, disaster management support and infrastructural development and planning.

हमें विश्वास है कि, यह पाठ्यक्रम आपके मंत्रालय/ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उपयोगी होगा। अतः आप से अनुरोध है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोत्साहित एवं नामांकित करने की कृपा करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरणिका, आवेदन फार्म और अन्य विवरण इसके साथ संलग्न है। संस्थान और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट <https://www.iirs.gov.in/DMcourse> से प्राप्त की जा सकती है।

I am sure, this course will be beneficial for the senior officers of your organisation and it is requested to nominate and encourage senior officers for attending the above training programme. The training programme brochure illustrating the course design, application form and other details is enclosed herewith. Application form and other details can be also obtained from our website: <https://www.iirs.gov.in/DMcourse>.

नामांकन संलग्न आवेदन पत्र के साथ इस ईमेल आईडी gitdloffice@iirs.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

The nominations may be sent in attached application form to the email id: gitdloffice@iirs.gov.in

शुभकामनाओं सहित,

With kind regards,

भवदीय,

Yours sincerely,

डॉ. राघवेंद्र प्रताप सिंह/ Dr. R. P. Singh
निदेशक / Director

संलग्नक / Enclosure:

- पाठ्यक्रम विवरणिका / Course Brochure
- आवेदन फार्म / Application Form

To,
Chief Secretary,
Government of NCT of Delhi
Delhi Secretariat
New Delhi-110001
Contact No. +91-11-23392100, +91-11-23392101
Email: csdelhi@nic.in

ABOUT THE COURSE

Earth Observation satellites launched over past few decades provide us periodically synoptic and systematic information pertaining to land, ocean and atmosphere and several aspects of environment. This information is a key ingredient in the programmes of the government at the Centre and State towards ensuring food and water security, monitoring and management of natural resources, monitoring of our environment and eco-system, forecasting weather and disaster management support, planning and monitoring of developmental activities, and information for better governance. Geographical information Systems (GIS) using satellite images, ancillary data and models can play critical role in all spheres of natural resource governance and developmental activities. Amidst all developments in Earth Observation and geospatial technology, resource managers and decision makers often wonder from where to obtain relevant data; how to process and extract relevant information; what are the constraints and time scales; how to train their working level personnel. This course focusses on strengthening the technical skills and knowledge of senior functionaries in governance, academia, industry and entrepreneurs on geospatial technology and its applications.

ABOUT IIRS

Indian Institute of Remote Sensing (IIRS) is a premier institute with a primary aim to build capacity in Remote Sensing and Geoinformatics technologies and their applications through training & education, research and outreach programmes. IIRS is a Centre of Indian Space Research Organisation (ISRO), Department of Space, Government of India. Formerly known as Indian Photo-Interpretation Institute (PII), founded in 1966, the Institute is the first of its kind in Remote Sensing in entire South-East Asia. While nurturing its primary endeavour to build capacity among the user community by training mid-career professionals since its inception in 1966, the Institute has enhanced its programmes to meet the requirements of various stake-holders, ranging from fresh graduates to policy makers including academia, industry, different government departments and NGOs. For more details please visit IIRS official website at <https://www.iirs.gov.in>

SIGNIFICANCE OF THE COURSE

The course aims at enhancing the knowledge of planners and decision makers on use Remote Sensing, Geographic Information System (GIS) and related technologies in governance for effective planning and decisions making.

Special Course


On
Remote Sensing: An Overview
For
Decision Makers

OCTOBER 06-10, 2025


Indian Institute of Remote Sensing (IIRS)
Indian Space Research Organisation (ISRO)
Department of Space, Government of India
4, Kalidas Road, Dehradun, India

www.iirs.gov.in

iirs



15B/C



TARGET GROUPS

Participants are expected to be senior professional managers, project leaders, planners or policy makers from different fields, such as agriculture, forestry, water resources, environment and ecology, disaster management, meteorology, geography, economics, urban, oceanography etc.

HIGHLIGHTS OF THE COURSE

- Current trends in Remote Sensing & Geospatial technology;
- Remote Sensing data, institutions and Policies; open sources data and software;
- Operational Remote Sensing Applications in Natural Resources Management;
- Demonstration on close range photogrammetry, Bhuvan and open source software;
- Disaster monitoring and management;
- Multi-disciplinary applications of geospatial technology;
- Recent trends in geospatial applications
- Case studies/ Demonstration;
- Geospatial technologies in governance.

MODE OF TRAINING

There will be interactive sessions and demonstrations in IIRS campus by senior and experienced Scientists of IIRS, ISRO and other knowledge Institutions. The contents of the course will be focused on demonstrative case studies and success stories using advanced geospatial technologies in various thematic domains.

APPLICATION DEADLINE:

SEPTEMBER 25, 2025

OUR CONTACT:

FOR ANY FURTHER DETAIL ABOUT THE COURSE, PLEASE CONTACT:

DR. KAMAL PANDEY
(COURSE COORDINATOR)

@ kamal@iirs.gov.in
☎ +91-135-2524331

DR. HARISH KARNATAK
(COURSE DIRECTOR)

@ harish@iirs.gov.in
☎ +91-135-2524354/4332

HOW TO APPLY

Eligible applicants are requested to send the scan copy of their application form, duly signed and forwarded by the controlling authority / institution along with the course fee through e-mail at gitdloffice@iirs.gov.in.

Link for application form:

https://www.iirs.gov.in/iirs/sites/default/files/pdf/2025/ApplicationForm_DM_course_2025.pdf

ELIGIBILITY CRITERIA

Officers of All India Services having 3 years of experience (OR) Senior official/functionaries working in Govt. organizations / Academic institutes / Research Institutes / Geospatial Industry / NGOs / or Entrepreneurs having 10 years of experience in service

COURSE FEE

Rs. 20,000 (includes tuition fee, single boarding/lodging, local transportation, training material, and registration kit) through online transfer or a demand draft of any Nationalized Bank in favour of Pay & Accounts Officer, Indian Institute of Remote Sensing, payable at Dehradun. The course fee should be submitted only when intimated by IIRS. The bank details will be sent in due course of time.

ISRO



iirs

154/c

Indian Institute of Remote Sensing
DECISION MAKER'S COURSE

October 06-10, 2025

Last date for receipt of application: September 25, 2025
(Through e-mail: gitdloffice@iirs.gov.in)

Application Form

1. Name in English (Dr/Mr/Mrs/Miss):

2. Name in Hindi:

3. Father's Name:

4. Date of Birth (DD/MM/YYYY):

5. Gender (Male/Female):

6. Designation:

7. Pay Level:

8. Organization:

9. Postal Address:

.....

10. Telephone (Off.): Telephone (Res.):

11. Mobile: E-mail:

12. Specialization/Interest (Please tick):

Agriculture and Soils	Disaster Management	Forestry, Ecology, Environment	Geosciences
Marine and Atmospheric Sciences	Urban and Regional Studies	Water Resources	Remote Sensing (RS) and GIS Technology
Applications of RS&GIS in governance	Geodata processing/ analytics	Others (please specify)-	

Date:

Place:

(Signature and Official Seal of the Participant)

Note:

- Please send filled and duly signed form to gitdloffice@iirs.gov.in
- The course fee should be submitted only when notified by IIRS for attending the course
- Please attach a nomination document from your organization along with this form

